

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 12.10.2020

थाना कटरा पुलिस को मिली कामयाबी,

जनपद बरेली के थाना भूता से वॉछित व वर्ष 2019 में ब्लाक प्रमुख विथरी चैनपुर पर जानलेवा हमला करने वाले शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार, 01 अदद अवैध तमन्चा मय कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद ।

श्री एस0आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार श्रीमती अपर्णा गौतम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियुक्त ओमपाल पुत्र नन्हेलाल नि0 नौगवा हरसा पट्टी थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली को 01 अवैध तमन्चा व 01 अदद कारतूस 315 बोर सहित हुलास नंगला फाटक रेलवे क्रोसिंग पर दिनांक 11.10.2020 को समय करीब 14.45 बजे गिरफ्तार किया गया । जिनके विरुद्ध थाना कटरा पर विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्त ओमपाल से की गई पूछताछ में बताया कि बिथरी चैनपुर के ब्लाक प्रमुख विजेंद्र सिंह से उसकी रंजिश चल रही है जिसमें 2 दिन पहले फोन पर से कहासुनी हो गई थी । जिस कारण मैंने गुस्से में उसे धमकी दे दी थी वह ऑडियो वायरल हो गया था तथा इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो गया था । बचने के लिए मैं बिथरी चैनपुर से अपनी ससुराल ग्राम बरी थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर जा रहा था अवैध तमन्चा व कारतूस मैंने अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रखे थे ।

थाना बिथरी चैनपुर तथा भूता से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ओमपाल पंडित एक शातिर अपराधी है जो छूटते ही सीधी गोली चलाता है । इसके द्वारा वर्ष 2019 में ब्लाक प्रमुख विजेंद्र सिंह के ऊपर जानलेवा हमला किया था जिसमें प्रमुख घायल हुआ था । इस संबंध में थाना भूता पर मुकदमा अपराध संख्या 325/19 धारा 307 आईपीसी पंजीकृत हुआ था तभी से इनके बीच भारी रंजिश चल रही है इसके अलावा भी इसका अपराधिक इतिहास है ।

बरामदगी का विवरण:-

ओमपाल पुत्र नन्हेलाल नि0 नौगवा हरसा पट्टी थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली ।

1. एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस ।
2. एक बुलैट मोटर साईकिल नं0 UP 25 CA 6454 रंग काला बरामद ।

आपराधिक इतिहास:-

ओमपाल पुत्र नन्हेलाल नि0 नौगवा हरसा पट्टी थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली ।

1. अ0सं0 325/19 धारा 307 भादवि थाना भूता जनपद बरेली
2. अ0सं0 27/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट भूता जनपद बरेली
3. अ0सं0 563/20 धारा 504/506 भादवि थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली
4. अ0सं0 477/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- (1) उ0नि0 श्री विनोद कुमार
- (2) का0 256 दिनेश कुमार
- (3) का0 2137 राहुल कुमार